

Ref: JAL:SEC:2017

14th December, 2017

**BSE Limited** 

25th Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street, Fort, MUMBAI 400 001 Fax No.022-22723121/2037/39/41

SCRIP CODE: 532532

The Manager
Listing Department

National Stock Exchange of India Ltd
"Exchange Plaza", C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), , Mumbai - 400 051

Fax No. 022-26598237/8238/8347/8348

NAME OF SCRIP: JPASSOCIAT

Sub: Copy of communication sent to the Shareholders and copies of advertisements published in Newspapers in respect of proposed transfer of shares to IEPF Suspense Account

Dear Sir,

In terms of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, the Company is required to transfer all Equity Shares in respect of which, dividend has not been claimed in 7 (seven) consecutive years or more, to the demat account of IEPF Authority.

The Company has since sent individual communication to the shareholders, who have not claimed 1st interim dividend for the Financial Year 2010-11, at their latest available address, advising them to claim the same at the earliest. Out of such shareholders, who fail to lodge valid claim with the Company/Registrar and Transfer Agent (RTA), the Company shall transfer the said unclaimed dividends to IEPF Authority by 28th February, 2018 alongwith the corresponding equity shares to the demat account of IEPF Authority. The Company has since published advertisement to this effect in Financial Express (English newspaper) and in Jansatta (in Regional language newspaper) on 12th December, 2017.

In compliance with SEBI (LODR) Regulations, 2015, a copy each of the individual communication sent to the Shareholders and advertisement so published are enclosed for kind perusal of the Exchanges.

This is for your information and records, please.

Thanking you,

Yours faithfully,

mmshl

For JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

(M.M. Sibbal)

Joint President & Company Secretary

Encl: As above



Corp. & Regd. Sector-128, Noida-201304, Uttar Pradesh (India)
Office: Ph.: +91 (120) 4609000, 2470800 Fax: +91 (120) 4609464, 4609496
Delhi Office: 'JA House', 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057 (India)

Ph.: +91 (11) 26141540, 26147411 Fax: +91 (11) 26145389, 26143591

E-mail : For Shareholders : jal.investor@jalindia.co.in

For Fixed Deposits : jalinvestor@jalindia.co.in : www.jalindia.com CIN : L14106UP1995PLC019017

### JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

CIN: L14106UP1995PLC019017

Regd. Office: Sector 128, Noida - 201 304, U.P.,

Delhi Office: JA House', 63, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057

Telephone: +91 (120) 4609000, 2470800 Fax: +91 (120) 4609464, 4609496

Website: www.jalindia.com; E-mail: jal.investor@jalindia.co.in



Dated: 27th November, 2017

Dear Shareholder(s),

### Sub.: Transfer of Equity Shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF)

As you are aware, the Company has been declaring and paying dividend from time to time till FY 2012-13.

Pursuant to the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 ('the Act'), the dividend amount(s) remaining unclaimed for a period of seven consecutive years from the date of transfer to the Company's Unpaid Dividend Account are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government in this behalf.

We regularly upload on our website as well as on the website of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, full details of such amounts of unclaimed dividend before transferring to IEPF and in every Notice of Annual General Meeting, the Company requested its members to encash dividend warrants/claim dividend before they are transferred by the Company to IEPF.

In terms of Section 124(6) of the Act read with Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended ("the Rules") the Company is required to transfer all equity shares in respect of which dividend has not been claimed for 7 (seven) consecutive years or more, to "Demat Account of IEPF Authority".

In terms of the abovementioned provisions amount of unclaimed dividend for FY 2010-11 (1<sup>st</sup> Interim dividend) is due for transfer to IEPF on 28<sup>th</sup> February, 2018 on completion of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account of the Company. If the dividend for FY 2010-11 (1<sup>st</sup> Interim Dividend) is not claimed by any investor on or before 20-02-2018, the corresponding equity shares will also be transferred to "Demat Account of IEPF Authority".

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to "Demat Account of IEPF Authority", may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to "Demat Account of IEPF Authority" as per Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which are registered in their name shall stand automatically cancelled and shall be deemed to be non-negotiable. In case of shares held in demat form the shares shall be transferred directly to "Demat Account of IEPF Authority" through the Depository Participant as per the Rules. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be deemed to be adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to "Demat Account of IEPF Authority" pursuant to the Rules.

It may please be noted that the subsequent corporate benefits, if any, such as Bonus Shares, Dividend etc. that may accrue in relation to the above equity shares will also be credited to the said Fund.

Therefore, we request you to claim the dividend for FY 2010-11 (1st Interim dividend) and other dividends for FY 2010-11 (Final dividend, FY 2011-12 (Final dividend) & FY 2012-13 (Final dividend), if applicable and lying unclaimed against your name (details available overleaf and on Company's website) by making an application duly signed by all the joint holders (if any) along with requisite documents viz.(1) Self attested copy of PAN card; (2) Certified true copy of the address proof, before 20th February, 2018 to Shares Department, Jaiprakash Associates Limited either at the Registered Office or at Delhi Office address of the Company mentioned above.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Authority pursuant to the said Rules. However, The shareholders can claim the same from IEPF by following the procedure as under:

S No.	Procedure	
1)	Make an online application in Form IEPF-5 available at www.iepf.gov.in alongwith the fee as may be prescribed by Central Government from time to time.	
2)	Send a copy of online application in Form IEPF 5 duly signed (as per registered specimen signature) along with requisite documents enumerated in the said Form IEPF-5 to the Company at its Registered Office for verification of the claim.	
3)	The Company shall within 15 days from the receipt of claim, send the verification report to IEPF Authority.	
4)	On verification, the IEPF Authority shall refund the unclaimed dividend amount and / or credit the shares in the demat account of the applicant.	

Note: Pursuant to the Rules, only one such request can be made in one financial year.

In case you have any queries, please feel free to contact the Company at email id jal.investor@jalindia.co.in. or M/s. Alankit Assignments Limited, 2E/21, Jhandewalan Extn., New Delhi 110055. Tel No: +91-11-42541232/23541234, E-mail: info@alankit.com.

Thanking you,

Yours faithfully,

mmsh

For JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

M M SIBBAL

JOINT PRESIDENT & COMPANY SECRETARY

Place: NOIDA



# **ASSOCIATES LIMITED**

Sector 128, NOIDA 201304 (U.P.) Jaiprakash Associates Limited

ios unuser especial perseitent to:

– NO DKEAM TOO BIG –

Real Estate Hospitality tnamaj



Construction

Details of dividends sent to you from financial year 2010-11 (1st Interim dividend) to FY 2012-13 (Final Dividend) which are lying unclaimed:

Financial Year (Dividend Type)	Date of declaration of dividend	Amount (Rs.)
* 2010-11 (Interim)	28.01.2011	
2010-11 (Final)	27.09.2011	
2011-12 (Final)	27.09.2012	
2012-13 (Final)	29.07.2013	
	Total	

<sup>\*</sup>Unclaimed dividend for FY 2010-11 (1" Interim) is due for transfer to IEPF unless claimed by the shareholders on or before 28" February, 2018.

### @ ASEAN CONNECTIVITY

## India proposes \$1-billion credit

FE BUREAU New Delhi, December 11

TO BOLSTER ECONOMIC and

TO BOLSTER ECONOMIC and cultural ties between India and the Asean, the government on Monday attressed on the need to focus on improving maritime, tood and raid connectivity.

According to Union minister for road transport, highway, shipping, water resources, river development and Ganga rejuvenation Nitin Gadkari, India has proposed a \$1-billion line of credit to promote sea, air and road connectivity Summit on "Fowering Digital and Physical I inkages for Asia in the 21st Century, Gadkari said, Mag, India last set upa project development fund of \$77 million to develop manufacturing hubs in Cambodia, Loas, Myanmar and Vietnam.

The summit, which is being opanised by the ministry of external atfairs and the Asean-India Control (Control Control Control

of the 11 member states of the Assen next uneath. According to Gadkari, river and port connectivity is very im-portant for bousting trade and investment and the government was giving special focus to de-veloping the maritime sector. The government base stasted 51 billion to promote projects that support physical and digital con-nectivity. We are planning to create cruis to curism in fetverely, which can be connected to Assen countries. This year, 80 cruise which can be connected to Ascan countries. This year, 80 cruise ships came to Mumbai. We are spending \$1,000 crore and building a cruise terminal. After five years, 950 cruise ships will

SIID: TRANSFER OF EQUITY PROTECTION FUND (IEPF).



Union minister Nitin Gadkari stressed on the need to focus on improving maritime, road and rail connectivity

and rail connectivity

Come to Mumbai."

Gadsari also said the work of dredging had started on Bralmaputra river for developing, awater transport channel up to Bangladesh. This will further connect India to Myanmar and other Ascan countries. "Connect wity projects such as the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway (Thly, extensine of Til to Cambodia, Laos and Vietnam Kaladan Multimodal Transit Transport Project are being planned are at different stages of implementation," the said.

India is altracedy working with Myanmar in the areas of border are development, capacity building, infrastructure development, some connectivity projects and institutional development. Stressing on the need to focus on improving mairtime connectivity with Ascan, Mos For MEA, Gen VK. Singh feetdy asid, "The Andaman and Micobar group of Islands will be developed as an economic and a strategic hub. Thereis astrong case for improving mairtime connectivity, Both Ascan and India are endowed with several fesiands."

Work is in progress on the Ascan India maritime transport cooperation agreement.

JAIPRAKASH ASSOCIATES LIMITED A SSCICLE A CLUB CONTROL OF THE CONTROL OF T

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Involves in New Journal of Section (124(s) of the Compones Act 2015 (And Fread with the Investor Education and Protection Fund Audicely (Recuzation), Audic, Tresifice and Berland Roles, 2015, as remediated (Fladers). The Company is required to transfer the equity shares, is respect of which divided has remained accessional for seven consecution years or made, to a clean transaction (EPF Authorn).

mere, to me demant account of HEPF Authority.

All of of shareholders which have not yet exceeded their deviced for financial year. 2010-11 (15 to Internal Division) which is made in the processor of the HEPF Authority which remains unclaimed for severe construction years and timester whose shares are leader to be to another of the demant account of HEPF Authority. In displayed under the Intervales Section on the Company provides, were plainted com.

The Company has seed interfacion communication to such shareholders at their street available existence shareholders and their street available existence of the Company provides, were plainted account of both their deviced for the formation of their street available existence of the Company to the Company to the Company to the Company to the PF Final did 2012 (2016). The Company of the Company shareholder such explored shorters in the demand account of EEPF Authority, without may further notice in herms of the said section of EEPF Authority, without may further notice in herms of the said finally where self-are columns will be against the Company of other services.

the said states or undermed divisional amount. The unclaimed divisioning and the equity chanes on since alto demais of IEPF Authorst, including all benefits accurate an since states, if a be channed have by the concorned shareholder from IEPF Author making an application in Form IEPF — a size after following the pro-procedure which is available at IEPF websize Le www.iepf gav in.

JAYPEE

Overles, if any, on the subject matter, may be widnessed to the Company a earlet jeldenester@pidenesse or in or may contact the Company's Register and Transfer Agond. Mrs. Ayakat Agostypremist Armado, 2824, Janadovalai Evia, Non Dathi- 110055. To: No. +91-11-42541239; 73541234, E-mail artioglyssite. Cont.

# initiatives such as Smart Gities, Make in India, etc, cleedy relates to several targets under SDGs. "We remain firmly committed to a rule-based, transparent, non-discriminatory, open and inclusive multilateral trading system as embodied in the WTO. We reaffirm our commitments to ensure full implementation and enforcement of existing WTO rules and are determined to work together to further strengthen the WTO, stated the joint statement. mortic China and Russia for a more intensive trade and eco-nomic partnership so that they can take advantage of the eco-nomic opportunities available here. Stating that the UN's Sus-tainable Developmental Goals External affairs minister Sushina Swarajin a joint address to the media along with her Russian and Chinese counter-parts, Sergey Lavrov and Wang Yi, respectively, said, "Our dis-

SKYWEB INFOTECH LIMITED Reg. Office: 15th Floor, EROS Corporate Tower, Nehru Place, New Delhi-110 019 Corporate Office: Plot No. 2A, First Floor, Sector 126, Noida, U.P. - 201 301 CIN: L72200DL1985PLC019763 Email: info@skywebindia.in

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED ON 30th SEPTEMBER, 2017

ĺ					Amt. In lak	hs except EPS
1	1	Quarter ended			Half year ended	
S. No.	Particulars	30th September 2017	30th June 2017	35th September 2016	30th September 2017	30th September 2016
ll		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total acome from excrations (not)					
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax. Except onal and/or Extraordinary items)	-0.36	-1.24	-0,62	-1,60	-1,69
3	Not Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and or Extraorismany demis)	-0,36	-1.24	-0.62	-1.60	-1.60
4	Net Profit ( )Loss for the period after taxtefter Exceptional and or Extraordinary items)	-0.36	-1.24	-0.62	-1.69	-1.60
5	Total Con-prehensive Income for the period [Comprising Profitions for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	-0.36	-1,24	-0.62	-1.60	-1.50
6	Equity Share capital	10,000,000	10,000,000	10,000,000	18.000,000	10,000,000
7	Reserve (excluding Revalution Reserves as shown in audited balance sheet of previous year)					
8	Earnings per share (of Rs. 10-each) for continuing and discontinued operations)					
li	a) Basic	-0.04	-0.12	-0.06	-0.16	-0.16
ll	b) Diluted	-0.84	-0,12	-0.66	-0.16	-0.16
NOT	FR·					

ES: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results field with the Stock Exchanges under Fiely, 33 or SEBI (Julium) And Other Disclosure Requirements) Regulations 2016. The fall format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Enfanges weeklets in evalumental and an company substitution workship workship-other an an

There is only one segment of Rusiness.

The Unaudited financial results of the Company for the quarter & half year ended on September 30, 2017 have been duly reviewed by Aud 4 Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 11th Decumber, 2617.

The above resists for the quarter ended 30th September, 2017 and corresponding quarter 30th September, 2016 are in consistent with the linear incounting Standards (Inh-ASS) resided by the ministry of Corporate Affairs, Rejaining 1st April 2017 the Company has for the first time advance INFOX by white extension ofter of 1st April 2017. In the Company has for the first time advance INFOX by white the ministry of the Company has for the first sent of a single position of the 1st April 2017. In the Company has for the first time affairs and the company of the company of the company of the company has for the company of the compa

The Statement does not include IND AS Complaint result for previous year ended March 31st 2017 as the salas per SERTs circular dated July 65th, 2016

Reconsidation of Net Profit as reported under Previous. Generally accepted accepted AS in almost below:

AS, IS GREET LEBENT.				
Nature of Adjustments	30th September 2016	30th September 2016	For the year ended 31st March 2017	
profit after tax (PAT) as per Provious GAAP after Non controlling interest	-0.62	-1.6	-4.16	
Effects of IND AS			-	
Tax effects				
Profit after (ax (PAT) as per IND AS after Non controlling interest	-0.62	-1.6	-4,16	

For and on Behalf of the Board

Sdi-Robit Kumar Sharma Whole Time Director & Chief Financial Officer DIN: 03497631 Date: 11.12.2017

#### Jt. President & Company Secretary Place : Noida Jt. Date : 11 December, 2017 (Membership No. FCS-3538)

for JAJPRAKASH ASSOCIATES LIMITED

THYROCARE TECHNOLOGIES LIMITED Registered Office: 0:37-1, TTC Industrial Area, MIDC Turbbe, Navi Mumbai 409 703.
Corporate Office: 0:37-3, TTC Industrial Area, MIDC Turbbe, Navi Mumbai 400 703.
Tel: (91 22) 2762 2762 | Fax: (91 22) 2766 2468 | Website: www.lhyrocare.com

Email: rangee d@bivrocare.com ( Corporate Identity Number: L85110kHt2600PLC (23882

## Thyrocare

Think Thyroid. Think Thyrocare.

Extract of Unaudited Consolidated/Standalone Financial Results for the Quarter & Six months ended 30 September, 2017 30.09.2017 Unaudited 775.43 Total Income from Operations 880.36 781.49 817.67 Net Profit for its period before tax (Betore Exceptional & Extraordinary &emis)
 Net Profit for the period before tax (After Exceptional & Extraordinary &emis) 291.24 126.01 710 45 908.47 339.51 342.07 Net Profit for the period after the (After Exceptional & Extraordinary Aemo)
 Total Comprehensive Income for the period. 246.58 466.77 11 75 234.42 466.23 467.76 234.66 27.01 8 Equity Share Capital (Face Value per Share: 1 10: quich) 537.23 537.23 536.92 537.24 537.24 537.24 Basic and Dicted Earnings Per Share (of \$ 10/- each) (Not annualised) u. Bar

b. Divited

- 4.55 1. The above forenoist results of the Congrum; were reviewed and rescent and to such committee on 9° December; 2017 and subsequently approved by the broad of directors at its investing held on 9° December, 2017.
- The Company-has adopted into Accounting Standard (Smot As) from 1' Apri 26 17. The figures to the purpose and provided and Accounting Standard (Smot As) from 1' Apri 26 17. The figures to the purpose and provided and the Smot Accounting Standard (Smot As) from 1' Apri 26 17. The figures to the Qualitative six months and of Firendard Resurts are available on the Stock Exchange deletions in the work of the Company in the Smot Accounting Standard (Inc. AS) from 1' Apri 26 17. The figures to the purvious quarters are also add as Compilers.

  The Company-has adopted indian Accounting Standard (Inc. AS) from 1' Apri 26 17. The figures to the purvious quarters are also as Ind. AS compilers.

  By Order of the Board

By Order of the Board For Thyrocare Technologies Limited Cr. A. Votemani Managing Disease 5th code2804

### Economists want Centre to stick to fiscal consolidation path

New Belhi, December 13.

In APRE-BUDGET meeting with finance minister Arun laitley and bis team, economists on Monday impressed upon the gowernment to stick to fiscal consolidation path, amisuance a road major of further tax reforms and give more incentives on infrastructure investiment and better remunerative prices to farmiers. They also suggested cut in corporate tax fast, taxing of long term capital gains, reduce minimum alternate tax [MAT] rate and ammounce a road major.

rate and announce a road map for goods and service tax (GST), including convergence of rates. Arvind Virmani, former chief

FE BUREAU New Delhi, December 11

NDIA, RUSSIA AND China on Monday, besides jointly con-demning terrorism in all its forms and manifestations, emphasised the importance of an open and in-turive world economy enabling all countries to share the benefits of plobalisation. External affairs minister Sushmas Swaraji in a joint address

commin adviser, said customs tariff system, that hasn't seen any major change, for several years after the peak rate of customs duty was brought down to 10%, needed a relook.

Rathin Roy, member, Frime Minister's Economic Advisory Council, said the government should have a fresh medium-term fiscal framework. Earlier his year, the NK Singh-headed Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Committee had recommended that the Centre should aim for a fiscal tee had recommended that the Centre should aim for a fiscal deficit of 3% of GDP for three straight years starting the current fiscal itself and gradually reduce it to 2.5% by 2022-23 and part-ner states in adhering to fiscal dis-

India, Russia, China for open world economy

cussions today were focused on four broad clusters of a reas, namely, economic and developmental lisense, fight against terrorism, global and multilateral sissues, and regional issues. Swaraj referred to the rise of India ranking in the World Bank Ease of Doing Business report to 100th this year, and said: "It have invited China and Russia for a more intensive trade and eco-

BUDGET WISHLIST

- # Reform tax laws further, bring down corp tax rate, tax long-torm capital gains # Review decode-old customs taxif system
- More thrust to PSU divest ment to generate revenues Raise old age/widow pension to ₹500/month

cipline. Singh was recently ap-pointed as chairman of the 15th Finance Commission, whose one of the mandate is to look at fram-ing a suitable FRBM framework. Among other issues, the economists suggested that the

(SDGs) mirror India's own vision of development, she said Indian

initiatives such as Smart Cities

Centre should give more thrust to disinvestment of PSUs to generate more revenues to meet the expenditure meed, without hurting facal goals. We understand that there is a genume commitment to maintain the facal defect and revenue defeit targets. Operational constraints may vary but political commitment is there; Koysaid.

The crammists also sug gested to raise old age pension from the existing \$200 to \$500/monthand vidowpension from \$00 to minimum \$200 to mi

\$500/monthand widowpension from ₹3.00 to minimum ₹500/-month. It was also suggested that maternity entitlement benefits be fully implemented and be ex-tended up to two children. Be-sides, they said payment system

for these social security schemes also meeds to be streamlithed. On taxes, the economists said the copperate tax rate should alway throught down to around 20% from own 50% now. The Common gall secreptions in order to make it globally-competitive. The Compared tax to 25% size to make it globally-competitive. The Compared tax to 25% size to make it globally-competitive. The Compared tax to 25% size to make it slabs of firms, with above \$50 cross turnover. It was also suggested to tax long-term capital gains to bring quity and takes revenue, reduce MAT rate, and announce the road map for 55%, including convergence of a taxe, sectioning time for tax stactions matching, etc. It was also suggested to give in centive to labour intensive industries, in


chading SMEs, and informal and unorganised sectors. The economists also suggested are loads at the ctop linourance scheme to make it inner effective, by extending the insurance cover from roup failure to price failure.

Jailey said the Centre is did lowing the insurance cover from compositive to a 3-Pase of Glowing the insurance which it has been consistently sheigh mought down in the past freely as the compositive from the past freely as the compositive freely large that the compositive freely in the compositive freely and the compositive freely as the comp

# ORIENTAL BANK OF COMMERCE (A Government of India Undertaining) RESOLUTION, RECOVERY & LIMO (LISTER OF FIRE FRANCHS) (Rule 811) Possession Notice (For immovable property) the underspined being the authorized officer of Oriental Bank of Commerce, Resolution Recovery & Law classified (Section 2014) (Rule 811) (Rule 811)

Faritabed under the Decemberson and Proceedings of the Commerce, Recording Recovery & Law is set of the Commerce, Recording Recovery & Law is set on a deposite control of Proceedings of the Commerce, Recording Recovery & Law is set on a december of the Commerce of the C

Date of Demand	
Possession Notice	Description of the Immovable Property
IG 08 12 2017 DP. Re 27,12,673,64 and solves	At most point and parcon of property Consisting of Property Sci 1265-1033, New Datasi Colony, 27 Feet Road, West Sid- Finishness, Forming Part of Reason No. 37, Nde No. 20-22(2)-5- DUFPCAFA III, ASSIS 1155-23, Yurde, Standing by the care-of- Visionals Bounded as: On the North Microst Policin Bis South Cast 5Feet from the East Vision plant for West Many Numa
28.07.2017  08.12.2017  Rs. 8, 48, 830 00 and adverses thereon wait of 1.07.2017 and other sharpes.	Activity per and pairs of proughts years sting of recipiety No. 78 Mesospore (18 DS) by Yards, yeard flow with basement, Me Mesospore (18 DS) by Yards, yeard flow with basement, Me Market Walf Cast. Word No. 8, Sarts Hospith Market, O Hardshoot, Standards of the Baseman Short, Kampon Welse To Registration Short Recipiety Fordabad. Extract Feromatic No. 18 December 1 Fordabad. Extract Feromatic No. 18 December 1 Fordabad. Charter Fordabad. Charter South Cast Market, O to Te Meth. Ametic Propany, Carter South Cast Market, O to Te Meth. Book Distant Jewellers. On the West 1 Shop St Conder (Goldwar).
	AR Bell part and partial of property socialistics MCF 1935. Evening Hoteran No.1415. 142. 24, a Physiola Gebrus, Marcin Genetic Balataginh, Harvey Area of 190 8O. Yarda, Standing in the non- offer. A facil thingshared short Kindleys Singo. Bounded as On the North PARSTA. On the South 1 PLOT No. 219, On the East PFOTN 151. On the West PLOT No. 195.
88 12 2017 Rs.4.78,215 30 and interest tremen west	All that part and pasted of H. NO. 189, MSG. 120 SQ. Yardi SQ. Bhashat Colony Edisbyase. SQ. Bhashat Colony Edisbyase. Bounded ss On the North: Property of Shyren Sunder, On the South: Rast 20 Feb. On the East Property of Shyren Sunder, On the South Shares, O Pow West 1974-68 Property.
68.12.2017	All that part and partied of property consisting of brappers; pro- Nat 18-6 Gall No Self-brazz Gharrich Sarriars Individual Foreign Floor Britishopsis Deaf Franchand or minimizing 500 egy yelf- branding in the manney of Me. Chandle Mohan Sib Self-Branni vall of the disposition was the popular foreign being 11 stables. RNAS Charte South 16: 30 Feet Road. On the West Int Char Frooting. All that open and passed of property remaining of property in NIV-B 781 Dobast Colony bill Frankland at invasiving 600 egy years sharing on the money of the Chandle Maham with mitter the optivishing of sharing on the money of the Chandle Maham with mitter the optivishing of sharing on the money of the Chandle Maham with mitter the optivishing of
01.69.2017 08.12.2017 1 Rs 62.67.156.50 6	sub register Faronated District Farlishade Bounders (NORTH- Reminung Fart of Flut, SOUTH-15feet Raste, EAST-Ohr- Dragotty, WEBT-Remaining Part of Flot. Air set part area period of property consisting of Pretton no Dio- Bengation on politino, 3-8676-887, NIT-Farlishades 121001 administrating 150-00 Saydet, stansing in the name of Son Stream Scot Datasyt Ras (Banama within the national of Son Stream Scot Datasyt Ras (Banama within the national Son
	Dessession Notice   Amount Outstanding   Amount Outstanding   Recognition   Recognit



Thousands of happy families in their own homes - this is the reason why we were created.

· Home Loans at attractive rates

e Property Insurance e Accidental Death Insurance

· Life Insurance (optional at lower rates)

Call toll-free: 1800 103 0000

Promobine of 19 to



GIC HOUSING FINANCE LTD. YOUR ROAD TO A DREAM HOME



Place : Navi Mumbai Date : 9" December 2017











0.22

4 36













ceer cacii.

### बीसीसीआइ की विशेष आम बैठक में नए एफटीपी पर बनी सहमति

# मैचों की संख्या बढ़ी, लेकिन खेल के दिन घटे

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) ।



कोलकाता में सोमवार को एक कार्यक्रम मे सम्मानित होने के बाद अजेंटीना के पूर्व फुटबॉल खिलाडी डिएमो मासडोना ने अवनी पत्नी के साथ।

#### शुभंकर ने जीवर्ग औपन का खिताब जीता

जोहानिसवर्ग ११ दिसंवर (भाषा) ।

शुभंकर शर्मा सोमवार जोबर्ग ओवन जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर बने। शुभंकर का यह पहला यूरोपीय टूर खिताव भी है और इसके साथ उन्होंने अगले साल होने वाले प्रतिदित ब्रिटिश ओपन के लिए क्वालीफाई कर लिया। इक्कीस साल के शुभंकर ने अंतिम दौर में तीन अंडर-69

से कल 23 अंडर 264 का रकोर बनाया। शुभंकर ने परेलू प्रबल दावेदार एरिक बान रूथेन (66) को तीन शाट से पछाडकर दर्नामेंट जीता जिसे एशियाई दूर से भी मान्यता प्राप्त है। दो बार के प्रशिवार्द रूर विजेता दक्षिण अफीका के शान नीरिस (65) और फिनलैंड के तापियो पुलकानेन संयक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे।

### सुआरेज, मेरसी के गील से वार्सीलोना जीता

मैड्रिड, 11 दिसंबर (एएफपी) ।

लर्द संअपरेज और लियोनल मेरूपी के ऑतिंग 20 भेन्ट में दागे मोलों की बदौलत वासीलोना ने 10 विकारियों के साथ ग्वेल गर्द विलारीयाल को 2-0 से हराकर ला लीगा फुटवाल टूर्नामेंट के शीर्ष पर अपनी बदन को दोबारा पांच अंक की कर दिया। मैच में जब एक घंटे का खेल पूरा हुआ तो रैफरी ने

सर्जियो बुसकेट्स घर फाउल करने के लिए डेनियल राबा को लाल कार्ड दिखाया जिसके कारण दिलारीयाल को बाकी मैच 10 खिलाड़ियो के साथ खेलना पड़ा। सुआरेज ने 72वें पिनट पे वसीतोना को बढ़त दिलाई जिसके बाद मेरसी ने 83वें भिनट में एक और गोल दागकर टीम की 2-0 से जीत सुनिधित की और लगातार दो ड्रा के बाद उसे जीत की सह पर लीटाया।

#### फिविंसग मामले में जमहोद पर 12 महीने का प्रतिबंध

लाहौर, 11 दिसंबर (एएफपी) ।

पांकेरतान ने इस साल की शरुआत में पाकिस्तान सूपर लीग (पीएसएल) को झकझोरने वाले स्पॉट फिविसग प्रकरण में जांचकर्ताओं से सहयोग नहीं करने पर पूर्व सलागी बल्लेबाज नासिर जमशेद पर एक साल का प्रतिबंध लगाया है। जमशेद ने कथित तौर पर खिलाड़ियों और कवित सट्टेबाज के बीच सहयोगी की भूमिका निभाई थी।

भारत 2019-2023 के जीन सभी प्रारूपों में 81 मैंगों की पंत्रवानी करेगा जो मौजूदा भांचण्य दीय कार्यक्रम (एफटीपों) से 30 अधिक है, लेकिन च्यरत हिकंदरों को एसकेर साल ना दिन क्रिकेट खेलनी होगी क्योंकि चीसीसीजाइ ने ारता क्रम्बर रहानना शामा क्यांक व्याससाधार न कमा रहिता याची रोगों के पात्र रेटर मेंची में करोती करने का फैसला क्रिया है। स्पेसलार को सार्च जीसीसीआइ की विशेष आप वैदक्त (एसजीएस) में सदस्यों के चौन एफटीची पर समेदप्पति से सक्यंति वजी। इसले एफटीची के चौन सारत स्वेदश में इन्लैंड, दिलाण आर्थामा और आर्द्धित्या के

इंग्लंड, बीक्षण अध्यक्त और आस्ट्रेलिया के स्थिताफ हाई प्रोप्यड्न शृंदालाई खेलेगा इसके अलाया कमान विसर कीहलों को खिलाड़ियों की बकान से संबंधित प्रिकाशकर पर भी गौर निया गया। अब बमर्थकारी समृह इस पर अलीक प्रेस समृह में बीसीसीआड़ के तीनों प्रवाधिकारी श्रामित्व है। वोड़े के बमर्थकारी सचिव अभिताभ चौधरी ने बैठक के बाद कहा. इससे पहले पाँच साल के चक्र (2019-इससे पहले पाँच साल के चक्र (2019-2023) तक के लिए प्रश्तावित एफटीपी में सभी प्रारूपों में 51 मैचों का प्रावधान था। नए प्रस्ताव में इस चक्र में S1 घरेलू मैचों का प्रावधान है।



नई दिल्ली में विशेष आम बैठक में वीसीसीआइ के कार्यकारी अध्यक्ष सीके खन्ना और अन्य अधिकारी।

चौधरी ने कहा कि घरलू शृंखलाओं में मैचों के दिनों की संख्या में 20 फीसर कमी होगी लेकिन

दिनों की संख्या में 20 फीसर कमी होंगी लेकिन मेंचों में 60 फीसर चढ़ोति हैं। आएगी। हासाधिक एक शीर्ष अधिकारों ने गोपनीयता को शत पर कहा कि कम रिक्रण वाली टीमों के दिखलाफ कम मुंखलाएं खेली आएगे। अभी यह नहीं पता चला है कि किम प्रारूप में कितने मैच खेले आएगे लंकिन चौपसी के चयान से यह साफ हो गया कि भारत घरेलू मृद्धलाओं में अधिक टी-20 डॉनराएटीय भैच संत्मा जबकि अधिकार यही टैरट मृखलाएं आस्ट्रेनिया, इंग्लैंड और चर्कण डाइविका के शिवलाफ खेली आएगे। इससे जिस प्रारूप को शिवलाफ खेली आएगे। इससे जिस प्रारूप को

सबसे अधिक नुकसान होगा वह द्विपशीय एकदियसीय क्रिकेट हैं। चौधरी ने कहा, हमारे एकदियमीय क्रिकेट हैं। चौधरी न कहा, इनाध कार्ध मंदर्स पूर्व तीन बढ़ी टीपी आर्ट्सिया, दक्षिण अप्रीवत और इंग्लैंड के विकास खेले जाएं। चौधरी से पूछा गया कि इसका मताव है कि केवल गया देश सी एक दूसरे के विलाफ अधिक टेन्ट पैप खेलीं) उन्होंने कहा, आग स्था कह सकते हैं। बढ़ेंड स्थिय से पूछा गया कि कोहली के अप्रीव स्थिय से पूछा गया कि कोहली क

थकान के मसले पर कितना गीर किया गया, उन्होंने कहा, भारतीय टीम को 2015 से 2019 के बीच सभी प्रारूपें (देश और विदेश) में 390 दिन क्रिकेट खेलनी थी। नए प्रस्ताव में

iderren

🕸 कम रैंकिंग वाली टीमों के साथ टैस्ट मैचों में कटौती

🕸 भारत 2019-2023 के बीच 81 मैगों की मेजवारी करेगा

 रातस्थान किकेट संघ का निलंबन हटा, ललित मोदी संचालन से रहेंगे दूर

2019 से 2023 के बीच 'उन्हें 306 दिन ही क्रिकेट खेलनी होगी। इसका मतत्त्व है कि पिछले चक्र में भारतीय टीम के लिए औमतन 97.5 दिन थे जो अगले चक्र में 76.5 दिन हो 97.5 (दन थे जो उत्पाद चेक्न में 76.5 (दन हो जाएंमे। उन्होंने कहा, इसमें आइसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व कप शामिल नहीं हैं जिनकी मेजवानी क्रमण: 2021 और 2023 में भारत को

ना ७। नया एफरीपी इस तरह से तैयार किया गया है ताकि अक्टूबर 2018 में बॉमीसीआई को अच्छा प्रभारण कशर हासिल हो। अभी वर्तमान प्रमारण अधिकार रहार स्पोह्म के पास है जिसको अधीन मार्च 2018 में स्थाम हो रही है। ज्ञन्य मनलों में बीर्मासी आह ने कीच्य रहकार केरान के मिलाण अपनी कानुनी लड़ाई आहे रहको के मिलाण अपनी कानुनी लड़ाई आहे रहको के मिलाण अपनी कानुनी लड़ाई आहे रहको के में स्थाम किया जिसने जान में 850 कोच्छे के मार्च जीता था। नीसरी ने कहा, कीच्य ने स्थाम में से देशा किया प्रमाण आप जिसने वीर्मासी के स्थामी के स्थामी के स्थामी के स्थामी के स्थामी के स्थामी के स्थाम के स्थामी के स्थाम का महान स्थामी का मुनी की से साम के से सामाना सीपि दिया हमने केरान किया कि हमें अरानत से आहर पहर सामाना किया कि हमें अरानत में सामाना सीपि दिया हमने केरान किया कि हमें अरानत से साहर पहर सामाना की सुना हमने केरान किया कि हमें अरानत से साहर पहर सामाना की सुनाइसाना नाहिए। इस कानुनी प्रक्रिया आहे रखेंके ।

रखें भी

प्रजीएम में एक अन्य फैसला राजस्थान

फिलेट सेंघ (आरसीए) का निलंबन हटाने का

किया गया लेकिन इन शर्त के माथ कि पूर्व
आइपीएल प्रमुख लिनत भोदी आरसीए के

संचालन से दूर रहेगे। वीगीसीआई ने क्रिकेटरों के डोप परीक्षण के मुद्दे पर भी अपना स्टब्स

यरकतर रखते हुए कहा कि नाहत के

खिलाईकों का परीक्षण करने की भीई जरूरत क्योंकि बोर्ड वाडा के नियमों का पालन

# भारत को एशियार्ड चैंपियनशिप में चार युवा ओलंपिक कोटा मिला

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (भाषा) ।

यौरभ चौधरी और मनु भाकर ने सोमबार जापान के बाको सिटी में 10वीं एशियाई को जानन के बाका तिरदा में 10वा सुरास्त्र वैभियनशिष 10 मीटर राइफलार्गिस्टल प्रतियोगिता में क्रमशः रवर्ण और रजत पदक के साथ 2018 सुवा ओलंपिक खेला के लिए कोटा स्थान हासिल किया।

स्थान हारित किया।
तीन में पुरुष १० मिटर एवर पिस्टाल युवा
रमधी में व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा के स्वर्ण
पदक जीते जबकि मुनु में महिता 10 मीटर
किया। भारत ने एक अन्य रजत
जुनियर महिता। 10 मीटर
किया। भारत ने एक अन्य रजत
जुनियर महिता। 10 मीटर
में जीता। भारत ने प्रतिभौगिता के
विकास भारत ने प्रतिभौगिता के

म आता भारत ने प्रावधाधाता के व्यवस्थित हैं अतिम दिन कार पदक जीते दिखरीय प्रतियोगिता में उसने छड़ रचणे, आठ रजत और सात कांस्य पदक के साथ कुन्ल 21 परक जीते और साथ दी पूरा औदाधिक छोलों के लिए चार फोटा

स्थान हासिल किए।

स्थान क्षारणा ज्ञानियर महिला 10 मीटर एसर पिस्टल स्पर्धा से हुई जहां ज़ूनियर विश्व चैंपियन यशस्यिनी सिंह देसवाल और महिमा अध्याल ने क्यालीफाईंग में क्रमुशः तीसरे और चौथे रश्चान के साथ आत निशानेबाजों के फाइनल के लिए चवालीफाई किया। दोनों ने फाइनत के लिए वयंताफाइ किया थानी न 378 का संकोर चनाया थोताज 372 अंदर्ज के साथ 11वें स्थान पर रही। भारतीय तिकड़ी ने कुल 1128 अंक के साथ टीम रजन पदफ जीता। ईंगन की टीम ने 1144 अंक के साथ टक्का जबकि कीरिया ने 1122 अंक के साथ कारय पदक जीता। फाइमूल में यशरियनी

195.7 अंक के साथ चौथे जबकि महिला 

e वाकी सिटी में तार दिवसीय प्रतियोगिता के 11 अंक पीछे दूसरे जबकि चीन की टीम 19 अंक पीछे तीसरे स्थान पर रही। फाइनल में सौरभ ने शानदार दौरान 21 पदकों पर जपाया कहना

फाइन्स्त में सीर्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए 243.1 डांक के साथ ररार्थ एदक अपने नाम किया और युवा ओतंपिक के तीन उपलब्ध कोटा में से एक अपने नाम किया। सीरण ने ईसन के इस्फान सलायाती को लगभग सात अंक से एवड़ा जिन्होंने 236.2 डांक के साथ उनत पदक जीता। कोरिया के ओकियाशे शिन ने 217.6 अंक के साथ कांस्य पदक हासिल 217.6 शंक के साथ करिय पदक सांसिल किया। अर्जुन 15.6.8 शंक के साथ छटे श्यान पर रहे। महिला 10 मीटर एवर पिस्टल चुना वर्ग में मनु चयालीफाईंग में 382 शंक के साथ शीर्य पर रही और फाइनल में प्रयोग करने याली एकमान भारतीय गई। ग्रिया गघव 368 शंक के साथ 10ई अवकि अनुष्मक पाटिल 365 शंक के साथ 22वें स्थान पर रही।

# दुबई फाइनल्स में बिंगजियाओं के खिलाफ अभियान शुरू करेंगी सिंधू

दुवई, 11 दिसंबर (भाषा) ।

गियो ओलॉपेक की रजत पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी भारत की पीची सिधु चुधवार से शुरू हो रहे सज्जांत दुवई सुपर सीरीज फाइनल्स के महिला एकल में अपने अभियान की शुरुआत कम रैकिंग वाली चीन की ही विगिजयाओं के

द्विताएक करगा। दुनिया की नंबर तीन सिंधू को ग्रुप ए में दुनिया की दुसरे नंबर की जापान की खिलाड़ी अकाने यामागुर्वी, जापान की ही 15वें नंबर की संयाका सातो और दुनिया की नंबर नी विंगतियाओं के

साल रखा गया है। ये गारी खिलाड़ी एक दूगरे के खिलाफ गर्डंड रोविन प्रारूप में खेली। दूसरे यूप में दुनिया की नंबर एक जीनी ताड़पे की ताड़ जू हिंग, जोशिया की पोस्तां नेकर को राह जा स्पन्न, इंटे नंबर को थाईलैंड की रत्यानीक इंग्रानी। और चीन की दुनिया की आउदी नंबर की चीन क्षेत्र की रखा गया है। ओलिंकर रूपणे परव-विनेता रमेन की कैसीलेना मारिन और दिश्व वीचियन नोजोगी ओकुहत्य इस ट्रानिंग्ट से एट गए हैं। पुरुष एक्सल में दुनिया के जीन नंबर के आरत के किस्तीओ औराकत किस्पर एम्सेल्यन, सातवें नंबर एक इंन्यानों की स्वित हैं। एक हेनमार्क के विकटर एक्सेलमन सातवें नेवर

के चाउ हिएम जेन और आठवे नंबर के शी युकी के साब रखा गया है। श्रीकांत अगना पहला पैच्य बुधवार को एक्संसरमन के खिलाफ खेलेंगे। यह भारतीय खिलाड़ी गीजूल रात्र में नेहतरीन मार्ग में रहा है और एक कैलेंडर वर्ष में यह सुपर सीरीय खिलाव जीवने चाला दुनिया का चीवा और पहला भारतीय खिलाड़ी बना। श्रीकांत ने इस दौरान इंडोनेशिया औपन, आस्ट्रेलिया औपन, इंनामके श्रीपन और में हम श्रीपन का खिलाब जीवा। लेकिन इसके बाद जांच की मार्ग्यालेंगों में खिचाव के मकरण यह चीन औपन और होगकांग श्रीपन में हिस्सा नहीं ले पाए।

# presents EXCELLENCE JOUR<u>NALIS</u>M Ĭ Acknowledging accuracy, courage, credibility & fairness, Wednesday December 20, 2017 New Delhi Chief Guest Shri M Venkalah Naidu The Hon'ble Vice President of India â indianexpress.com/rngf Follow #RNGAwards #4 LIVE STREAMING ON INDIANEXPRESS.COM | FINANCIALEXPRESS.COM | JANSATTA.COM | LOKSATTA.COM

# टेलर के रेकार्ड शतक से वेस्ट इंडीज मुश्किल में

हैमिल्टन, 11 दिसंबर (एएफपी) ।

होमराट, 111 देखरी (एएवा) 1
रोत टेलर ने रेकाई को बरावरी करते हुए 17ये शतक से न्यूजीलींड
ने दूसरे क्रिकेट टेरट के तींसरे दिन तेस्ट इंडीज को 444 रम का लख्य
रमें के बाद उसके दी बिकेट जरकाकर गृंधाला में क्लीमत्यीप की और
कहम ब्रह्मा शीसरे दिन का शेला खन्म होने तक वेस्ट इंडीज ने 30
रन तक दो विकेट गंवा दिए हैं।
सामवार को जा दिन न्यूजीलिंड के नाम रहा। टीम ने पहले वेस्ट
इंडीज को पहली पारी में 221 रम पर रोककर 152 रम की बहुत
हासिस्त की और फिर टेसर के नाजार 107 रम की मस्दर से यूनरी पारी
आडि दिकेट मर 291 रम वमाने के बार पीषित करके कोर इंडीज को
444 रम का लक्ष्म दिया। न्यूजीलेंड ने इसके बाद दूसरी पारी में कीरम
पार्वेल (00) और शिमरोर हेंटमायेर (15) को प्रवेशियन भेजकर
वेरट्राईजी को संकट में डाला। दिन का खेल खत्म होने पर सालामी
बल्लेवाज और कम्मान कीम ग्रंबनेट 13 ग्रंबनिंड शाह होरी पएक रम बनाकर खेल रहे थे।

बल्लवाओं और क्रातान क्रम प्रेबवट 13 अवाल शाह होंग एक रव याकर खेल रहें थे। येन्ट इंडीज की टीम को जीत के लिए 414 रन जबिक न्यूजीलेंड को आड विकेट की दरकार है। टेटल ने अपनी इस पारी के रीरान न्यूजीलेंड की ओर से सर्वाधिक 12 शतक के दियंगत पूर्व कप्तान मार्टिन क्रों डीर मीजूद कप्तान केन विलियमसन के रेकार्ड की दरवार्थ ही। टेलर को इस भारी के बीरान वे जीवनदान भी मिल। उन्होंने रेमन रीफर पर पारी का 11वां चौका जड़ते हुए 198 गैर में शतक पुश किया म्यूजीलेंड को और से कप्तान केन विलियमसन में भी 54 रन की पारे रेजुजीलेंड को और से कप्तान केन विलियमसन में भी 54 रन की पारे रेजुजीलेंड को और से कप्तान केन विलियमसन में भी 54 रन की पारे रेजुजीलेंड को और से कप्तान केन विलियमसन में भी 54 रन की पारे रेजुजीलेंड को से से कप्तान केन विलियमसन में भी 54 रन की पारे रेजुजीलेंड को से से प्रक्रियोग कार्यक्षिय केन में शिक्ट कार्यक में रीन देविकेट पर 215 रन से आगे खेलने वतरी और उपने छह रन जोड़कर अपने वाकों देविकेट भी गोज रिए। ट्रेट विल्ड (73 रन पर पार विकेट) ने सुवह किस्स (15) और गैशियल (00) को चोल्ड किया। टिम साउथी, नील वेगमर और कोलिन डिडीइहोग ने भी बोन्डो विकेट परकाए।

### जयप्रकाश

एसोसिएटस लिमिटेड

सी आई एम : L14106UP1995FLCD19917 प्रणिकुम कार्यास्य : शेक्टम - १८६ भीएक-२४१८६४ । ४४ दिस्सी कार्यास्य : १९४४ - १८६ भीएक-२४१८६४ । ४४ दुश्यास : १४११८४० १८५००००, १४४०००० भीचम : १९११८००००००, ४८००००० प्रचास : १४५५५००००० । १९४० - १९४१८०००००, ४८००००० ।

### अंशधारकों को सूचना 🤫

प्रमाणित में पूर्व प्राप्त विकास कीन स्थेतन किसे स्थापिकार होग्राज्य होजा प्रतिका स्थाप्ताव्य में वेद एक प्राप्त विकास किस के प्रत्य प्राप्त प्राप्त किस होने एक प्रत्य के आहे हुए अपनी कांग्रिय होने एक प्रत्य के आहे हैं इस्त्र प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य इन्त्र के अनुकार प्रतिकृति किया करा है कि कार्यों की सार्थ के उन्तर है, हिम्मिक सेवार्थ में सार्थ कराया र सार्थ की प्रत्य के अनुकार की किस कार्य के हैं। इस्त्रिकार के कैसी स्थाप में सर्थानीत्य अरूप में दूर से हैं।

अफ्रीकारण में किसी बार्य में उस मिलांगीं के बहु पात है जात ने मिलांगी के समायंत्र के स्वारं के स्वारं के समायंत्र के समायंत्र को समायंत्र को समायंत्र को समायंत्र को समायंत्र को समायंत्र को स्वारं के समायंत्र को समायंत्र के समायंत्र क

आई हैनीएक प्रांतिम्स्यक के नीविष्ट काल में मूलावासीच जोगा ने माना सामांम एवं भावत सामां तथा तुमां कार्य तारित कार्य को में मूलावासीच कार्य कर प्रधानिक प्रधान कर कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य क करने के अब दोता करिता कार्य कर किया कार्य के स्वतिकार कार्य कार्य के अवस्था कर करिता कार्य कार्य कार्य कर कर कार्य कार्य कार्य कर कर कर कार्य कार्य कार्य कर कार्य कार्य कर कार्य कार्य कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कर कार्य कार्य कर कार्य कार्य कर कार

एका दिवन पर. कोई मी दरन, कंपनी की ई बेस ' jainvestor@jainnts oo in पर प्रस्था कंपनी के परिस्तुत्तर एवं प्राप्तकर पुलेश मेतार करातीका आग्रामनेत दिवनिष्ठ, 2ई दूर द अधेरातान एकारण नहीं दिन्ही - माराज्य, दूरनोव कामा ११-४१:-42541224, 27542744 कुँ-मेरा info@afanisht.com गर शिक्षा कार मकाते हैं :

AYPEE

कृते जवप्रकाश एसोसिएटस लिपिटेर

एम. एम. शिबल संयुक्त अध्यक्ष एव वंपनी सक्ति (बरायका क्यांक एक श्री एव-3538, रुवान : नीएडा दिलांक : 11 दिसम्बर, 2017

सीबादेशन में डीएस-21047/03-05, आरएनआई में 42819/83, वर्ष 35, अंक 25, हवाई शुल्क: रेफन:चीच रुप, मृताहरी-चर एए. मृताहरी-चर एए. मृताहरी-चर एए. मृताहरी-चर एए. मेहाट: -2013), जिल सीला बुट नाम (उन्न प्रदेश में मूर्जिस और एस्सीस सिटिया ७-10, चहाद कार अपने, मेहिन्सी-11000 में अवसित प्रतिक (0120) 247070),2470740, ई-मेन: jansatla.noi@expressinda.com, फैसर. (0120) इन मुक्तेम महाहरी - 'मैकाली आरियान के कता देवानी के पनक किसमेवान कार्योग्डर: हे द्वित्तिक एसती स्वार्थित स्वार्थित एस प्रतिक कुनाति वित्त कर्म प्रमाण वासामे का दासी के का प्रभावन या प्रसाण नवी किया जा सकता। दि इंडियन एग्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्टोज क्षार्य ए-इ. संग्रंटर ७, नीपडी- २ २४७०७५३, २४४००७५, बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश



















GatewayRails.





34 Michigan





Banking Partner

( Union Bank